



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2005/अग्रहायण 2, 1927

No. 476]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2005/AGRAHAYANA 2, 1927

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2005

सा.का.नि. 684(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) संशोधन आदेश, 2005 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 में,—

(क) खण्ड 2 में, उप-खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) “खाद्य तेल आयुक्त” से खण्ड 3क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई खाद्य तेल आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, इस आदेश के अधीन किसी खाद्य तेल आयुक्त के किसी या सभी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त किया गया कोई व्यक्ति भी है।”

3. खण्ड 3 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“क. खाद्य तेल आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के अधीन, खाद्य तेल आयुक्त के किसी या सभी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को खाद्य तेल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के अधीन, खाद्य तेल आयुक्त के किसी या सभी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को भी सशक्त कर सकेगी :

परन्तु ऐसा अधिकारी, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय के विकास अधिकारी से नीचे की पंक्ति का अधिकारी नहीं होगा।

(3) किसी खाद्य तेल आयुक्त के कृत्यों का प्रयोग करने वाला कोई खाद्य तेल आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः कार्बनिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या तेल प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य और उसको खाद्य तेल, वनस्पति और वसा से संबंधित किसी संगठन में, बारह वर्ष का अनुभव (जिसमें कार्यकारी/प्रशासनिक अनुभव भी हैं), होना चाहिए।”

[फा. सं. 17/2/2005-एक्सपे.]

कर्नल सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल आदेश, भारत के राजपत्र में, सा.का.नि. 584(अ), तारीख 17 सितम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् सा.का.नि. 710(अ), तारीख 30 नवम्बर, 1998 तथा सा.का.नि. 97(अ), तारीख 4 फरवरी, 2000 और सा.का.नि. 363(अ), तारीख 16 जून, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2005

G.S.R. 684(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Edible Oils Packaging (Regulation) Order, 1998, namely :—

1. (1) This Order may be called the Edible Oils Packaging (Regulation) Amendment Order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Edible Oils Packaging (Regulation) Order, 1998, —

(a) in clause 2, for sub-clause (c), the following shall be substituted, namely :—

“(c) “Edible Oils Commissioner” means the Edible Oils Commissioner appointed by the Central Government under clause 3A and includes any other person empowered by the Central Government to exercise any or all of the functions of the Edible Oils Commissioner under this Order.”

3. After clause 3, the following clause shall be inserted, namely :—

“3A. Appointment of Edible Oils Commissioner.—(1) The Central Government shall appoint an officer to be an Edible Oils Commissioner to exercise any or all the functions of Edible Oils Commissioner under this Order.

(2) The Central Government may also empower any other officer to exercise any or all the functions of the Edible Oils Commissioner under this Order :

Provided that such officer shall not be an officer below the rank of Development Officer in the Directorate of Vanaspati, Vegetables Oils and Fats.

(3) The Edible Oils Commissioner or any other officer to exercise the functions of an Edible Oils Commissioner shall possess Master's degree in Chemistry preferably in Organic Chemistry or Post-Graduate Degree in Oils Technology from a recognized University or equivalent and should have 12 years' experience (including executive/administrative experience) in an organization connected with Edible Oils, Vanaspati and Fats.”

[F.No. 17/2/2005-Exp.]

KARNAIL SINGH, Jt. Secy.

Foot Note : The principal Order was published in the Gazette of India vide G.S.R. 584(E), dated the 17th September, 1998 and subsequently amended by G.S.R. 710(E), dated the 30th November, 1998, G.S.R. 97(E), dated the 4th February, 2000 and G.S.R. 363(E) dated the 16th June, 2004.